



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

*Published by Authority*

भाद्र 27, बुधवार, शके 1941-सितम्बर 18, 2019  
*Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941-September 18, 2019*

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 09, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9493** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Rawatsar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Rawatsar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

प्रारूप - क

वार्ड न. 01

उत्तरी पश्चिम पालिका सीमा के कोने से पूर्व की तरफ पालिका सीमा पर चलते हुए श्री दीनदयाल शर्मा के घर तक | वहां से दक्षिण में चलते हुए ईदगाह को छोड़ते हुए ही दाये मकानों को शामिल करते हुए ओम प्रकाश सुथार के मकान को छोड़ते हुए PSP (साजन नायक) तक | वहां से नंदराम नायक को शामिल कर पश्चिम में सीधा पक्की सड़क पर चलते हुए भंवरराज सिंह की कोठी को शामिल करते हुए जयसिंह व जोगी मौहल्ला को बाये छोड़ते हुए सामुदायिक भवन को शामिल करते हुए सीधा पश्चिम में पालिका सीमा तक | वहां से सीमा पर उत्तर की ओर चलते हुए पालिका सीमा तक।

वार्ड न. 02

पश्चिम में पालिका समा से जोगी मोहल्ला को शामिल करते हुए सामुदायिक भवन को उत्तर में छोड़ते हुए सीधा पूर्व दिशा में चलते हुए जयसिंह जोधा, सुभानदीन के मकान को शामिल करते हुए कारपेट सड़क पर चलते हुए भंवर सिंह के नोहरे को उत्तर में छोड़ते हुए, शंकर पेडिवाल के घर तक | वहां से दक्षिण दिशा में मुड़कर भुभता सिद्ध मंदिर को पश्चिम दिशा में शामिल करते हुए आमीन खां के मकान तक | आमीन खां के मकान से पश्चिम दिशा में मुड़कर चलते हुए मक्खन सिंह को शामिल करते हुए मेहरदीन खां के घर तक | मेहरदीन खां को पश्चिम में शामिल करते हुए दक्षिण में

छोटू खां की चक्की तक | वहां से पश्चिम में चलकर महेन्द्र / ओमप्रकाश किरोडीवाल की दुकान तक वहां से कृषि भूमि तक | जहाँ से सीधा पश्चिम में पालिका सीमा तक से उत्तर में चलते हुए (बावरियो) के मकान तक |

#### वार्ड न. 03

पालिका की पश्चिम सीमा 2 APM चक गोस्वामी समाज श्मशान भूमि के दक्षिण से शुरू होकर सीधा पूर्व में चलकर शान कालोनी को उत्तर में छोड़ते हुए कृषि भूमि आबादी के बीच से सीधा पानी के गड्डे की पश्चिम मगली तक | वहां से महेन्द्र / ओमप्रकाश किरोडीवाल की दुकान तक | दुकान से पूर्व में चलते हुए उत्तर मकानों को छोड़ते हुए दक्षिण के मकानों को शामिल कर छोटू खां की चक्की तक | वहां से उत्तर में चलकर मेहरदीन के मकान तक | वहां से मेहरदीन को पश्चिम में छोड़ते हुए पूर्व में चलते हुए मकखन सिंह को छोड़ते हुए आमीन खां के घर तक | आमीन खां को उत्तर में छोड़ते हुए दक्षिण में चलते हुए सफी मोहम्मद के घर तक | वहां से थोड़ा पूर्व में मुड़कर सोहन सिंह के नोहरे को शामिल कर फिर दक्षिण में मुड़कर श्रवण मेघवाल के घर, गुलजार बाजीगर, कृष्ण नाई के घरों को पूर्व में छोड़ते हुए सीधा धर्मपाल छापोला के मकान, सामुदायिक भवन तक | वहां से सामुदायिक भवन को दक्षिण में छोड़ते हुए पश्चिम में चलकर धर्मपाल को शामिल कर मोमन भाट के घर के दक्षिण की गली तक | वहां से मोमन भाट के घर को दक्षिण में छोड़कर सीधा पालिका की पश्चिम सीमा तक | वहां से सीमा के साथ - साथ उत्तर में चलते हुए गोस्वामी समाज श्मशान भूमि तक |

#### वार्ड न. 04

पालिका सीमा से पूर्व में चलते हुए मोमन भाट को दक्षिण में शामिल करते हुए गन्दे पानी के खड्डे को उत्तर दिशा में छोड़ते हुए सीधा पूर्व दिशा में चलते हुए धर्मपाल के मकान तक | धर्मपाल के मकान को पश्चिम में छोड़ते हुए सामुदायिक भवन को शामिल करते हुए कृष्ण नाई के घर तक | कृष्ण नाई के घर से सीधा पूर्व में चलते हुए ब्राह्मण धर्मशाला को छोड़ते हुए भारत भूषण के मकान तक | वहां से बीरबल मास्टर को पूर्व में छोड़ते हुए भारत भूषण के मकान से दक्षिण में मंगतू छिम्पा के घर तक | मंगतू छिम्पा से पश्चिम में चलते हुए भागमल शर्मा के मकान तक | भागमल शर्मा के मकान को दक्षिण में छोड़ते हुए सीधा खोड़ावाले रास्ते पर चलते हुए रा030प्रा0 विधालय को शामिल कर सामुदायिक भवन को छोड़ते हुए शिवलाल शर्मा के मकान को उत्तर में शामिल करते हुए पालिका सीमा तक | पालिका सीमा से चलते हुए मोमन भाट के मकान की सीध में सीमा तक |

#### वार्ड न. 05

पश्चिम दिशा में पालिका सीमा से शिवलाल शर्मा की ढाणी से खोड़ावाले रास्ते पर पूर्व में चलते हुए सामुदायिक भवन को लेते हुए रा030प्रा0 विधालय को छोड़ते हुए भागमल शर्मा, बनवारी गेदर के मकान को शामिल करते हुए गौड़ पीसीओ तक | वहां से उत्तर में चलकर प्रहलादराम के मकान को शामिल कर ब्राह्मण धर्मशाला के सामने पूर्व में चलकर बीरबल, शंकरलाल वेद को शामिल कर सड़क के साथ चलते हुए नत्थुराम वकील को शामिल कर वहां से गौरव पथ पर दक्षिण में चलकर गौरव पथ चलकर चलकोई चौक तक | वहां से दक्षिण में चलकर हेतराम धतरवाल को शामिल कर सुशील मुंदरा को छोड़ते हुए पश्चिम में मुड़कर पीडी शर्मा के मकान तक | वहां से दक्षिण में आशाराम शर्मा के घर तक | आशाराम शर्मा के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में संतलाल

न्योल के मकान तक | वहां से दक्षिण में राजकुमार लुहार, कृष्ण कुम्हार को छोड़ते हुए तेजपाल भाम्भू, प्रहलाद जाट को लेते हुए प्रेम सिंह के मकान से मुड़कर दक्षिण दिशा में गली न. 32 पर चलते हुए मेगा हाईवे तक | मेगा हाईवे से पश्चिम में हाईवे के साथ-साथ गैंग हट को शामिल करते हुए पालिका सीमा तक | वहां से पालिका सीमा के साथ - साथ चलते हुए खोड़ावाला रास्ते तक |

वार्ड न. 06

(सरदारशहर रोड) DWD नहर पुलिया से सड़क के साथ-साथ पूर्व दिशा में चलते हुए मेघवाल धर्मशाला को शामिल करते हुए सैन मन्दिर तक | सैन मंदिर से मुड़कर दक्षिण में सीधे चलते हुए रा0उ0प्रा0 विधालय व बलराम, शेरसिंह बाजीगर को शामिल करते हुए DWD नहर तक | DWD नहर के साथ साथ चलते हुए सरदारशहर रोड तक |

वार्ड न. 07

सैन मंदिर से पूर्व में हाईवे के साथ साथ चलते हुए भादू पम्प को शामिल करते हुए व रामा खादरिया(धानमंडी की दुकान) की दुकान तक | रामा खादरिया से मुड़कर दक्षिण दिशा में चलते हुए भारी ट्रेडर्स तक | भारी ट्रेडर्स से मुड़कर श्याम मंदिर तक | श्याम मंदिर से दक्षिण में चलते हुए गहलोत के मकान को शामिल करते हुए पानी के खड्डे तक | पानी के खड्डे के साथ साथ चलते हुए(दक्षिण में) DWD नहर पर सेवगों की छतरी तक | सेवगों की छतरी से दूद नहर से पश्चिम में चलते हुए शेरसिंह बाजीगर के मकान को पश्चिम में छोड़ते हुए सीधे रा0उ0प्रा0 विधालय के रास्ते तक | इस रास्ते के साथ साथ उत्तर में चलते हुए रा0उ0प्रा0 विधालय को पश्चिम में छोड़ते हुए गली न.3 पर सैन मंदिर तक |

वार्ड न. 08

सरदारशहर रोड मेगा हाईवे पर गली न. 32 पर उत्तर में चलते हुए कृष्णलाल कुम्हार के मकान तक। वहाँ से पूर्व में कृष्णलाल कुम्हार को शामिल कर प्रहलाद जाट व संतराम न्यौल के मकान को उत्तर में छोड़ते हुए पूर्व में चलते दुर्गा मंदिर को शामिल कर आशाराम शास्त्री के मकान तक। आशारम शास्त्री के मकान से उत्तर में चलते हुए सीताराम रतिवाल के मकान तक। वहाँ से पूर्व में मुड़कर सीताराम रतिवाल, सुल्तान रतिवाल को शामिल कर हेतराम धतरवाल के मकान तक। वहाँ से हेतराम धतरवाल को पश्चिम में छोड़कर उत्तर में चलकर चलकोई चौक तक। चलकोई चौक से पूर्व में चलते हुए घनश्याम बिहाणी, दिनेश लढड़ा, रविन्द्र नाथ कॉलेज को छोड़ते हुए गौरव पथ पीपल गट्टा तक। पीपल गट्टा से मुड़कर दक्षिण दिशा में गली न. 26 (गौरव पथ) मेगा हाईवे तक। वहाँ से हाईवे के साथ चलकर गली न. 32 तक।

वार्ड न. 09

श्रवण मेघवाल के घर के पास स्थित गंदा नाला पुलिया से पूर्व में चलते हुए अग्गीवाल कारखाने को शामिल करते हुए रिछपाल के मकान को छोड़ते हुए मंगतु सिंह के मकान से डीडी किड्स स्कूल को छोड़ते हुए गढ़ तक। गढ़ को छोड़ते हुए सवाईसिंह के मकान को शामिल कर रमेश जाजु के मकान को शामिल करते हुए सड़क के साथ-साथ पिरताणी भवन को शामिल करते हुए खदरिया के मकान को छोड़ते हुए केदार बिहाणी के मकान को पूर्व में छोड़ते हुए पीपल गट्टा तक। पीपल गट्टा से पश्चिम में गौरव पथ पर चलते हुए चलकोई चौक, घनश्याम बिहाणी तक। वहाँ से उत्तर में घनश्याम बिहाणी को शामिल करते हुए नत्थुराम के मकान तक। नत्थुराम के मकान को छोड़ते हुए शिवभगवान पिरताणी को शामिल कर पश्चिम दिशा में चलकर ब्राह्मण धर्मशाला को शामिल करते हुए भारत

भूषण के मकान को छोड़ते हुए गुलजार बाजीगर के मकान तक। गुलजार बाजीगर के मकान से उत्तर में चलते हुए जीत सिंह के मकान को शामिल कर श्रवण मेघवाल के मकान तक।

वार्ड न. 10

महबूब खाँ के मकान से पूर्व दिशा जोधाबास बस स्टैंड रोड पर चलते हुए रिशाल सोनी के मकान तक। रिशाल सोनी के मकान से दक्षिण में मुड़कर गौरव पथ चलते हुए फैज मोहम्मद के मकान तक। फैज मोहम्मद के मकान को दक्षिण में शामिल करते हुए पूर्व में चलते हुए छोटूराम मोची के मकान तक। वहाँ से दक्षिण में पतली गली पर चलते हुए टावर को छोड़ते हुए डॉ. सक्सेना के पुराने मकान तक। वहाँ से पश्चिम में मुड़कर डॉ. सक्सेना, दुर्गराम बुरडक को शामिल कर भूरसिंह सिहाग के मकान तक। भूरसिंह के मकान से दक्षिण में चलते हुए गोपीराम अगीवाल के मकान को पूर्व में छोड़ते हुए राजेन्द्र जोशी, करतार टेलर, डीडी किड्स स्कूल को शामिल करते हुए पश्चिम में चलते हुए गौरव पथ को पार कर अगीवाल कारखाने को दक्षिण में छोड़ते हुए पश्चिम दिशा में गंदे नाले के साथ चलते हुए श्रवण मेघवाल के घर तक। श्रवण मेघवाल के घर से उत्तर में मुड़कर मनफूल कुम्हार, सफ़ी मोहम्मद को शामिल कर भभूता सिद्ध मंदिर की ओर चलते हुए मंदिर को पश्चिम में छोड़ते हुए जोगी मौहल्ला रोड तक। रोड पर पूर्व में चलते हुए महबूब खाँ के मकान तक।

वार्ड न. 11

LIGH सड़क पर सतार खाँ के खाली नोहरे से आयुब खाँ के मकान को शामिल करते हुए गौरव पथ तक। गौरव पथ पर पूर्व में मुड़कर अमरचंद, अम्बेडकर स्कूल शामिल कर मस्जिद को छोड़ते हुए भादरराम लुहार को शामिल कर ढाब तक। ढाब को शामिल कर सड़क के साथ-साथ उत्तर दिशा में चलते हुए मोहनलाल सोनी के घर तक। वहाँ से पश्चिम में चलकर सोहन सोनी के घर तक। वहाँ से उत्तर में LIGH चलकर जगदीश तारग को शामिल कर LIGH रोड तक।

वार्ड न. 12

अमर शहीद बीरबल स्मारक समिति (मोची धर्मशाला) के पश्चिम में रामदेव कॉलोनी रोड से जोधाबास पुलिस थाना रोड पर चलते हुए पीपल गट्टा को शामिल करते हुए जसवीर सिंह के मकान तक। जसवीर सिंह के मकान से सीधा उत्तर में चलते हुए मोहनलाल धानक के घर तक। वहाँ से मोहनलाल धानक को छोड़ते हुए पूर्व में मुड़कर LIGH रोड खेतरपाल मंदिर रोड पर LIGH सैक्टर भूखंड स. 495 के मकान तक। वहाँ से सीधा उत्तर में चलते हुए चम्पालाल कुम्हार, रघुवीर जाट के मकान तक। वहाँ से रघुवीर जाट के मकान को शामिल कर चम्पालाल कुम्हार के मकान को दाएं छोड़ते हुए सीधा पश्चिम में चलते हुए केसरा जी मंदिर को शामिल करते हुए विशनोई श्मशान भूमि के साथ-साथ पश्चिम में चलते हुए LIGH सैक्टर भूखंड स. 405 व हंसराज बावरी के मकान तक। वहाँ से हंसराज बावरी को पश्चिम में छोड़ते हुए दक्षिण में चलते हुए पुलिस कॉलोनी को दाएं छोड़ते हुए बाबा रामदेव कॉलोनी की रोड पर जोधाबास LIGH रोड तक।

वार्ड न. 13

बिश्नोई श्मशान भूमि की पूर्वी दीवार से उत्तर में चलते हुए भाखरांवाला चक रास्ते तक। वहाँ से थोड़ा पूर्व में चलकर पृथ्वीराज देहड़ू के मकान तक। वहाँ से उत्तर में चलकर गुरुकुल स्कूल तक। गुरुकुल स्कूल को शामिल कर पूर्व में चलते हुए सीधा भभूता सिद्ध मंदिर तक। वहाँ से हेतराम खोथ के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण में मुड़कर सत्यनारायण पुनियाँ के घर को पूर्व में छोड़ते हुए

वहाँ से पूर्व में मुड़कर कृष्ण ढाका के मकान तक। वहाँ से खेतरपाल मंदिर के पीछे तक। वहाँ से बाबा रामदेव-खेतरपाल रोड़ पर चलते हुए चम्पालाल कुम्हार के मकान तक। वहाँ से पश्चिम में चलते हुए केसरा मंदिर को छोड़ते हुए, नरुका के मकान को शामिल कर सीधा विश्नोई श्मशान भूमि की पूर्वी दीवार तक।

#### वार्ड न. 14

बाबा खेतरपाल रामदेव मंदिर रोड़ पर निक्कुराम सांगवाल के मकान से निक्कुराम के मकान को शामिल कर दयाराम के मकान को छोड़ते हुए सीधा उत्तर में चलते हुए रामकुमार के मकान व दुकान को शामिल कर नोहरे को छोड़ते हुए भूपराम को शामिल कर राजेन्द्र बजाज को छोड़ते हुए टाटा कंपनी के टावर से सीधा गली न. 9 पर चलते हुए रूपसिंह पटवारी को शामिल करते हुए व रामकुमार मांझू की दुकानों को छोड़ते हुए मेगा हाईवे तक। मेगा हाईवे पर सीधा उत्तर में चलते हुए भगवती किरयाना स्टोर तक। वहाँ से भगवती किरयाना स्टोर को शामिल कर जम्भेश्वर मंदिर, रा0उ0प्रा0वि0 विश्नोई बास तक। वहाँ से सीधा दक्षिण में चलते हुए विष्णु खिलेरी के मकान को शामिल कर राजेन्द्र खोथ के मकान को छोड़ते हुए भभूताजी मंदिर तक। भभूताजी मंदिर से पूर्व में चलकर सत्यनारायण पुनियाँ को शामिल कर, कृष्ण ढाका के मकान को छोड़ते हुए बाबा खेतरपाल मंदिर पीछे रोड़ तक। वहाँ से दक्षिण में मुड़कर सीसी रोड़ पर चलते हुए डॉ. रामजीलाल को शामिल करते हुए निक्कुराम सांगवाल के घर तक।

#### वार्ड न. 15

बाबा खेतरपाल रामदेव मंदिर रोड़ पर निक्कुराम सांगवाल मकान से निकुराम के मकान को छोड़ते हुए दयाराम के मकान को शामिल करते हुए सीधा उतर में चलते हुए रामकुमार के मकान व दुकान को छोड़कर नोहरे को शामिल करते हुए भूपराम को छोड़कर राजेन्द्र बजाज को शामिल करते हुए टाटा कंपनी के टावर से सीधा गली न.9 पर सीधा चलते हुए रूपसिंह पटवारी को छोड़ते हुए व रामकुमार मांझू की दुकानों को शामिल करते हुए मेगा हाइवे तक। मेगा हाइवे पर सीधा दक्षिण में चलते हुए पशु चिकित्शाल्या तक | वहाँ से सीधा पश्चिम में मुड़कर पशु चिकित्शाल्या, वन विभाग, राज0 उच्च मा0 विधालयको शामिल करते हुए बाबा खेतरपाल रामदेव मंदिर रोड़ व गुरुगोविंद सिंह मार्ग के चौराहे तक | चौराहे से उतर में चलकर समाज कल्याण छात्रावास, रा0 प्रा0 विधालयको शामिल करते हुए निक्कुराम सांगवाल व दयाराम के घर तक |

#### वार्ड न. 16

मोहनलाल धानक के मकान से दक्षिण में चलकर जसवीर बाजीगर ओर अशोक कुमार ढालिया के मकान को छोड़ते हुए LIGH रोड़ पर जगदीश तारंग के घर तक | वहाँ से दक्षिण में सोहनलाल सोनी के घर तक | वहाँ से पूर्व में मोहनलाल सोनी के घर तक | मोहनलाल सोनी के घर से दक्षिण में ढाब को छोड़ते हुए रामदेव मंदिर धर्मशाला को छोड़ते हुए भगतसिंह चौक तक | भगतसिंह चौक से उतर में खेतरपाल मंदिर रोड़ पर चलते हुए ओम रंगीला को शामिल गुरुचरण कामदार को छोड़ते हुए समाज कल्याण छात्रावास के सामने रामस्वरूप मेघवल के घर तक | वहाँ से पश्चिम में कारपेट रोड़ पर चलते हुए मोहनलाल धानक के घर तक।

#### वार्ड न. 17

गुरु गोविंद सिंह मार्ग व खेतरपाल-रामदेव मंदिर रोड के चौराहे पर जगराज सिंह के मकान से दक्षिण में चलते हुए ओम रंगीला को पश्चिम में छोड़ते हुए भगतसिंह चौक तक। भगतसिंह चौक से रा0बा0उ0मा0 विधालय की दक्षिण-पूर्वी दीवार तक। वहाँ से उत्तर में रा0बा0उ0मा0 विधालय की दीवार के साथ-साथ चलकर ओमप्रकाश शर्मा के मकान तक। वहाँ से पतराम स्वामी, सांवरमल नाई के मकान को शामिल कर पूर्व में भभूता मंदिर तक। भभूता मंदिर से पूर्व में चलते हुए एम0डी0 स्कूल को शामिल कर चानण राम बैनीवाल के मकान, बनवारी गीला, भागीरथ बीजारणीया, बजरंग शर्मा के मकानों को छोड़ते हुए मुखराम बिजारणीया के घर तक। मुखराम को छोड़ते हुए हेतराम गीला को छोड़ते हुए मनीराम बिजारणीया को शामिल कर वहाँ से पूर्व में चलते हुए जाट समाज छात्रावास को पश्चिम में छोड़ते हुए सतपाल बसवाना के मकान को शामिल कर नत्थुराम भाटिया के मकान तक। भाटिया के मकान को शामिल कर सीधा मेगा हाइवे तक। मेगा हाइवे से उत्तर में चलते हुए ESSAR पेट्रोल पंप, गजानन्द भाटी के मकान गुरुगोविन्द सिंह मार्ग तक। वहाँ से पश्चिम में जगराज सिंह के मकान तक।

#### वार्ड न. 18

सांवरमल नाई के घर से पूर्व में चलते हुए उत्तर में मकानों को छोड़ते हुए दक्षिण में मकानों को शामिल करते हुए चानणराम बैनीवाल के मकान को शामिल करते हुए एम.डी. स्कूल को छोड़ते हुए सीधा पूर्व में चलते हुए भागीरथ बिजारणीया को शामिल करते हुए मुखराम बिजारणीया के घर तक। वहाँ से मुखराम बिजारणीया, हेतराम गीला के मकानों को शामिल कर दक्षिण में चलते हुए जाट छात्रावास को शामिल करते हुए सतपाल बसवाना के मकान तक। वहाँ से सीधा दक्षिण में चलकर अमित गोदारा के मकान को शामिल कर मेडिकल एजेन्सियों तक वहाँ से पूर्व में मुड़कर मेगा हाईवे तक। मेगा हाईवे पर दक्षिण में चलते हुए राजकीय चिकित्सालय व पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय को शामिल करते हुए पी.डब्ल्यू.डी. के दक्षिण-पूर्वी कोने तक। वहाँ से पश्चिम में मुड़कर रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत मार्ग पर कालु मोची की दुकान तक। वहाँ से उत्तर में चलकर भगत सिंह चौक, भगत सिंह चौक से पूर्व में चलकर गर्ल्स स्कूल के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। वहाँ से उत्तर में चलकर सांवरमल नाई के घर तक।

#### वार्ड न. 19

जोधाबास-बस स्टैंड रोड पर अम्बेडकर चौक से पूर्व में चलते हुए यूनिस अली को शामिल करते हुए ढाब के साथ-साथ चलते हुए मदरसा सामुदायिक भवन रामदेव मंदिर धर्मशाला को शामिल करते हुए भगत सिंह चौक तक। भगत सिंह चौक से दक्षिण में चलते हुए श्रवण भार्गव की दुकानों तक। वहाँ से पश्चिम में मुड़कर रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत मार्ग पर शंकरलाल सुनार की दुकानों तक। वहाँ से दक्षिण में चलकर रानी लक्ष्मी कुमारी स्कूल को छोड़ते हुए घनश्याम बिहाणी के नोहरे तक। नोहरे को शामिल करते हुए वहाँ से पश्चिम में चलते हुए प्रमोद सिंह भाटी के घर तक। वहाँ से गढ़ को दक्षिण में छोड़ते हुए डूंगर सुनार के घर तक। वहाँ से उत्तर में चलते हुए घनश्याम मोची के घर तक। घनश्याम मोची, धर्मन्द्र मोची विधायक के घर को दक्षिण में छोड़ते हुए सीधा पश्चिम में चलते हुए सादक के मकान को शामिल करते हुए बालादेवी को छोड़ते हुए फैज मोहम्मद के घर के सामने नोहरे/गौरव पथ तक। वहाँ से उत्तर में चलते हुए यूनिस अली के मकान तक।

#### वार्ड न. 20

शंकरलाल सुनार की दुकानों से दक्षिण में चलकर रानी लक्ष्मी कुमारी स्कूल को शामिल करते हुए घनश्याम बिहाणी के नोहरे तक। नोहरे को छोड़ते हुए वहाँ से पश्चिम में चलते हुए प्रमोद सिंह भाटी के घर तक। वहाँ से गढ़ के दक्षिण में शामिल करते हुए इंगर सुनार के घर तक। वहाँ से उत्तर में चलते हुए घनश्याम मोची के घर तक। घनश्याम मोची के घर से पश्चिम में चलते हुए धर्मन्द्र मोची विधायक के घर को शामिल कर बालादेवी के मकान तक। वहाँ से दक्षिण में मुड़कर छोटाराम मोची के नोहरे को पश्चिम में छोड़ते हुए पतली गली में चलते हुए टावर को शामिल कर डॉ. सक्सेना के पुराने मकान तक। वहाँ से पश्चिम में मुड़कर डॉ. सक्सेना, दुर्गाराम बुरड़क को छोड़ते हुए गोपीराम अगीवाल के मकान तक। वहाँ से गोपीराम अगीवाल को शामिल कर राजेन्द्र मोची को छोड़ते हुए सीधा दक्षिण-पूर्व में चलते हुए गढ़ तक। वहाँ से गढ़ को पूर्व में शामिल कर दक्षिण में रमेश जाजू के मकान को छोड़ते हुए ओमप्रकाश बुकलसरिया के मकानों को शामिल कर पिरतानी भवन, चौक को छोड़ते हुए, केदार बिहाणी को शामिल कर गौरव पथ पर लिच्छुराम सोनी के मकान तक। वहाँ से पूर्व में मुड़कर राकेश खदरिया, पवन शर्मा, जितेन्द्र गोयल के मकान को छोड़ते हुए ईश्वर कस्वा के मकान को शामिल करते हुए सीधा गली न. 25 पर कृ0वी0स0स0 के गोदाम तक। वहाँ से उत्तर में थोड़ा चलकर फिर पूर्व में मुड़कर ताराचंद गोदारा के मकान को शामिल कर आशीष कामड, चौधरी पब्लिक स्कूल को छोड़ते हुए चतरुराम गरुड़ा के मकान तक। चतरुराम गरुड़ा के मकान से पूर्व में चलते हुए मदनलाल शर्मा के मकान तक। वहाँ से उत्तर में चलकर भँवर सूडा को शामिल कर, जेठाराम छिम्पा को छोड़ते हुए हनुमान मंदिर तक। वहाँ से रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत मार्ग तक। लक्ष्मी कुमारी चूडावत मार्ग पर पश्चिम में चलकर शंकरलाल सुनार की दुकानों तक।

#### वार्ड न. 21

गौरव पथ पर राकेश खदरिया व लिच्छुराम सोनी के मकानों के बीच की गली से शुरू करते हुए राकेश खदरिया को शामिल कर सीधा दक्षिण में गली न. 26 गौरव पथ पर चलते हुए मेगा हाईवे तक। मेगा हाईवे पर पूर्व में चलते हुए एस बी आई बैंक युवराज होटल को शामिल कर चान्दोरा मार्किट गली संख्या 23 तक। चान्दोरा मार्किट गली न. 23 पर उत्तर में चलते हुए प्याऊ तक। प्याऊ को शामिल करते सार्वजनिक शौचालय को छोड़ते हुए थोड़ा पश्चिम में मुड़कर प्रेम सोनी, मुंशीराम बांवरी के मकानों को शामिल कर रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत मार्ग तक ओमप्रकाश सैनी को शामिल कर कृष्ण मटोरिया के घर तक। कृष्ण मटोरिया के घर से पश्चिम में रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत मार्ग पर चलते हुए हनुमान मंदिर व धर्मशाला तक। वहाँ से हनुमान मंदिर व धर्मशाला को शामिल कर दक्षिण में चलते हुए मदनलाल शर्मा के मकान तक। वहाँ से पश्चिम में मुड़कर चतरुराम गरुड़ा के मकान तक। चतरुराम गरुड़ा के मकान को शामिल कर दक्षिण में चलते हुए चौ. प. स्कूल को शामिल कर आशीष कामड के मकान तक। आशीष कामड के मकान को शामिल कर ताराचंद गोदारा के मकान को छोड़ते हुए गली न. 25 पर कमल खदरिया के मकान तक। वहाँ से गली न. 25 पर चलते हुए कृ. वि. स. स. गोदाम तक। वहाँ से पश्चिम में चलते हुए जितेन्द्र गोयल, पवन जी शर्मा के मकानों को शामिल कर ईश्वर कस्वा के मकान को उत्तर में छोड़ते हुए सीधा गौरव पथ पर राकेश खदरिया के मकान तक।

## वार्ड न. 22

पाहवा ऑटो स्टोर से रानी लक्ष्मी कुमारी चुडावत मार्ग पर पश्चिम दिशा में चलते हुए मटोरिया गेराज को शामिल करते हुए पश्चिमी दिशा में चलते हुए कृष्ण लाल मटोरिया के मकान तक । वहा से दक्षिण दिशा में मुड़कर बनवारी डाकोत के घर को छोड़ते हुए ओम माली को छोड़ते हुए सुरेन्द्र कुमार / नोपाराम ढूंढाडा के मकान को शामिल करते हुए कृष्ण बांवरी के नोहरे को छोड़ते हुए प्रेम सोनी, मुंशीराम बांवरी को शामिल करते हुए सहदेव गोदारा, दुलीचंद सुथार के घर को छोड़ते हुए चान्दोरा मार्किट प्याऊ को पश्चिम में छोड़ते हुए मेगा हाईवे तक । वहा से मेगा हाईवे पर हनुमानगढ़ की तरफ चलते हुए पाहवा ऑटो स्टोर तक ।

## वार्ड न. 23

मेगा हाईवे रोड पर धानमंडी की दुकान संख्या 22 व जनरल मार्किट दुकान संख्या 01 के बीच की गली में दक्षिण में चलते हुए धानमंडी को पश्चिम में छोड़कर आवासीय निकट धानमंडी सेक्टर को शामिल कर सीधा राज.प्रा. वि. वार्ड न. 18 तक, वहा से विधालय को दक्षिण में छोड़ते हुए सीधा पूर्व में चलकर रामपुरा रोड चोराहे की हाई मास्ट लाइट तक । वहा से सीधा पूर्व में गौशाला रोड पर चलते हुए लाजवंती ओड के मकान को छोड़ते हुए रामलाल ओड के मकान को शामिल करते हुए जगदीश छिम्पा के मकान को छोड़ते हुए बेदी फैक्ट्री को शामिल करते हुए कुरडाराम के घर को शामिल करते हुए सीधा मेगा हाईवे सरदारशहर रोड तक । वहा से रोड के साथ साथ पश्चिम में चलकर रामलीला मैदान को शामिल कर जनरल मार्किट दुकान स. 01 तक ।

## वार्ड न. 24

श्याम मंदिर के दक्षिण दीवार के साथ पश्चिम में चलते हुए थोडा दक्षिण में मुड़कर बाबूलाल गहलोत के मकान तक । बाबूलाल गहलोत को उत्तर में छोड़ते हुए पश्चिम में चलकर गंदे पानी के खड्डे पर गुगन/बगताराम के घर तक । वहा से दक्षिण में खड्डे के साथ साथ चलते हुए विनोद पारीक के मकान को शामिल कर सेमनाला के साथ साथ चलते हुए बृजलाल सेवग के मकान तक । वहा से बृजलाल सेवग को शामिल कर उत्तर में वेदप्रकाश पीएचईडी के मकान तक । वहा से वेदप्रकाश के घर को दक्षिण में छोड़ते हुए पूर्व में चलते हुए बंशीलाल शर्मा, भूराराम को छोड़कर राजू लिम्बा के घर तक । वहा से रा.प्रा.वि. वार्ड न 18, पन्नाराम गोदारा के गोदाम को शामिल करते हुए वहा से उत्तर में धान मंडी दुकान न. 40ए के दक्षिणी गली में पश्चिम में चलकर धान मंडी दुकान न. 61ए से आगे श्याम मंदिर चौक तक।

## वार्ड न. 25

डीडब्ल्यूडी नहर पर सेवगो की छतरी से उत्तर में चलकर सेमनाला तक । वहा से सेमनाला के साथ साथ बृजलाल सेवग के मकान तक । बृजलाल सेवग के मकान को पश्चिम में छोड़ते हुए सीधा उत्तर में चलकर वेदप्रकाश शर्मा पीएचईडी के मकान तक । वहा से वेदप्रकाश शर्मा को शामिल कर सीधा पूर्व में चलकर बंशी लाल, भूराराम, हंसराज लिम्बा रा.प्रा.वि. को शामिल कर सीधा रामपुरा रोड चौराहे पर हाई मास्ट लाइट तक । वहा से सिंगाठिया एग्री वर्क्स को शामिल कर गौशाला रोड पर चलते हुए संतलाल झाझडिया के घर तक । वहा से उत्तर में चलकर जाटो के नोहरे, संतलाल सुथार



को छोड़कर गोपीराम रेगर के घर तक । वहा से पश्चिम में चलकर कैलाश मेघवाल के घर तक । वहां से उत्तर में चलकर कैलाश मेघवाल को छोड़कर लालचंद रेगर को शामिल कर पारीक स्कूल, नारायण सिंह को दक्षिण में छोड़ते हुए पारीक कॉलोनी के उत्तरी कोने तक । वहा से सीधा पूर्व में मुड़कर पालिका सीमा तक । पालिका सीमा पर पालिका सीमा के साथ साथ चलते हुए डीडब्ल्यूडी नहर तक । वहा से डीडब्ल्यूडी नहर के साथ साथ पश्चिम में चलते हुए सेवगो की छतरी तक ।

#### वार्ड न. 26

मेगा हाईवे रोड पर सिगड़ो की दुकान से रामपुरा रोड पर सीधा दक्षिण में चलकर गोगामेडी तक । गोगामेडी से रामपुरा रोड पर चलते हुए बाईं तरफ महेंद्र थालोड के मकान तक । वहा से थालोड के मकान को शामिल कर संतोष उटवालिया के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण में सी सी रोड पर चलकर बलराम छिम्पा को शामिल कर बलराम छिम्पा के घर के सामने से सी सी रोड पर चलते हुए गौशाला रोड तक । वहा से गौशाला रोड पर पूर्व में चलते हुए संतलाल झाझडिया के मकान तक । वहा से उत्तर में मुड़कर संतलाल झाझडिया को पूर्व में छोड़ते हुए जाटों के नोहरे, संतलाल सुथार को शामिल करते हुए गोपीराम रेगर के मकान तक । गोपीराम रेगर को शामिल कर पश्चिम में चलकर कैलाश मेघवाल को शामिल कर लालचंद रेगर को छोड़ते हुए पारीक स्कूल की गली तक । गली में उत्तर में चलकर पारीक कॉलोनी को छोड़ते हुए नारायण सिंह करडवाल के मकान तक । वहा से पारीक स्कूल के कोने से पारीक स्कूल को छोड़कर नारायण सिंह करडवाल को शामिल कर पश्चिम में चलकर बाबू सुथार, राजवीर करडवासरा को शामिल करते हुए, रामजीलाल, बुधराम वाल्मीकि, भंवरलाल वाल्मीकि के घरों को छोड़ते हुए, भंवर लाल वाल्मीकि के घर से उत्तर में चलते हुए राजकुमार कुम्हार के मकान को पश्चिम में शामिल करते हुए सीधा शनि मंदिर रोड गली न. 49 तक, वहा से गली संख्या 49 में सीधा पश्चिम में चलते हुए लालचंद कुम्हार को शामिल कर चाईया वाले कासनिया की दुकानों मेगा हाईवे तक । वहा से मेगा हाईवे पर सरदारशहर रोड की तरफ चलते हुए रामपुरा रोड सिगड़ो की दुकान तक ।

#### वार्ड न. 27

मेगा हाईवे पर जरनेलसिंह निरंकारी के मकान से पूर्व में चलते हुए जयचन्द धनारिया की दुकानों को उत्तर में छोड़ते हुए सीधा पूर्व में चलते हुए बीरबलराम पूर्व एम.पी. के घर तक, वहां से दक्षिण में सीधा चलते हुए मदन पटवारी, शिवकरण के मकान को शामिल कर नोहर रोड पर रतीराम पारीक की दुकानों तक । वहां से पूर्व में नोहर रोड पर चलते हुए पालिका सीमा तक । वहां से पालिका सीमा दक्षिण में सीमा के साथ-साथ चलते हुए 4 सीवाईएम के रास्ते तक । वहां से 4 सीवाईएम के रास्ते पर पश्चिम में चलते हुए पारीक कालोनी के उत्तर- पश्चिम कोने तक । वहां से दक्षिण में चलकर पारीक स्कूल तक । पारीक स्कूल से दक्षिण में मुड़कर सीधा चलकर नारायणसिंह, बाबू सुथार, राजवीर कडवासरा के मकानों को छोड़ते हुए भंवरलाल वाल्मिकी के मकान तक । वहां से भंवरलाल वाल्मिकी, सुभाष सुथार, कालूराम मेडिकल वाले के नोहरे को शामिल करते हुए राजकुमार कुम्हार, कालूराम चबरवाल, लालचन्द कुम्हार के मकान को छोड़ते हुए शनि मन्दिर रोड गली संख्या 49 तक । वहा से गली संख्या 49 पर पश्चिम में चलते हुए मेगा हाईवे रोड तक । वहा से उत्तर में

मेगा हाईवे पर चलते हुए मेडिकल की दुकानों , पेट्रोल पम्प , बतरा होटल, एम.डबल्यू. होटल को शामिल कर जरनेलसिंह निरंकारी के मकान तक ।

#### वार्ड न. 28

नोहर रोड़ पर सत करतार डेरे के दक्षिण- पश्चिमी कोने के दीवार की गली से पूर्णराम लुहार को शामिल करते हुए सीधा उत्तर मे डेरे की दीवार के साथ चलते हुए करतार सिंह जाट के घर तक वहा से सोलिंग रोड़ पर पश्चिमी मे चलते हुए शिवभगवान पारिक के घर को छोड़ते हुए महावीर जोशी के घर तक । वहा से महावीर जोशी को उत्तर मे छोड़ते हुए सोहन लाल रेगर पटवारी के नोहरे जिसमे टावर लगा है उसको शामिल करते हुए सीधा दक्षिण मे चलते हुए मदन पटवारी, शिवकरण के मकान को छोड़ते हुए संतलाल गोस्वामी, अशोक नागपल को शामिल करते हुए सीधा नोहर रोड़ तक । वहा से पूर्व मे नोहर रोड़ पर चलते हुए सत करतार डेरे के दक्षिण- पश्चिमी कोने तक ।

#### वार्ड न. 29

तहसील कार्यालय के पीछे समाज कल्याण छात्रावास (बालिका) के मुख्य गेट के सामने की गली से सीधा पूर्व मे चलकर पालिका सीमा तक । वहां से पालिका सीमा पर मोहनलाल शर्मा के मकान को शामिल कर सीधा दक्षिण में चलकर शिवभगवान पारिक के घर तक । वहां से पश्चिमी में सोलिंग रोड़ पर चलते हुए महावीर प्रसाद जोशी, नरेश जोशी के मकान को शामिल कर रेवंताराम पारिक के मकान तक । रेवंताराम पारिक के मकान उत्तर मे चलते हुए शंकरलाल जोशी, प्रकाश मिस्त्री, बाबूसिंह के मकान को शामिल कर रघुवीर तरड़ के मकान को छोड़ते हुए समाज कल्याण छात्रावास (बालिका) के मुख्य गेट तक ।

#### वार्ड न. 30

मेगा हाईवे पर कोर्ट रोड़ पर सीधा पूर्व मे चलते हुए पालिका सीमा तक । वहां से दक्षिण मे पालिका सीमा के साथ चलते हुए मोहन शर्मा के मकान तक । मोहन शर्मा के मकान से राजकीय बालिका छात्रावास के पास श्रीकिशन वकील के मकान तक । वहां से श्रीकिशन वकील के घर को शामिल कर सीधा दक्षिण मे चलते हुए प्रकाश मिस्त्री, शंकरलाल जोशी को पूर्व मे छोड़ते हुए, रघुवीर तरड़ रामकुमार पेशकार के मकान को शामिल कर सुख महेन्द्र, रेवन्ताराम पारीक के मकान तक । वहा से रेवन्ताराम को छोड़कर राजेश कुमार सहारण को शामिल कर वहा से उत्तर मे चलते हुए सोहन पटवारी के घर तक। सोहन पटवारी के घर को शामिल कर सीधा दक्षिण मे चलते हुए महावीर भाटी को शामिल कर सीधा बीरबलरम पूर्व सांसद के घर तक । वहा से बीरबलरम पूर्व सांसद के मकान को दक्षिण मे छोड़ते हुए सीधा मेगा हाईवे जरनेलसिंह को दक्षिण मे छोड़ते हुए जयचन्द धनारिया की दुकानों तक । वहा से मेगा हाईवे पर सीधा उत्तर मे चलकर तहसील कार्यालय तक ।

#### वार्ड न. 31

22 एजी रोड़ पर फैक्ट्रीयो से सीधा आगे तिराहे से 22 एजी की तरफ चलते हुए पालिका की सीमा तक । वहां से पालिका की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलते हुए पालिका की पूर्वी सीमा 10

एएम चक तक | वहां से पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण में चलते हुए मोहनलाल शर्मा के मकान तक | वहां से पश्चिम में चलते हुए तहसील की दक्षिणी दीवार से होते हुए मेगा हाइवे तक | वहां से उत्तर में चलते हुए मेगा हाइवे से कोर्ट रोड तक | कोर्ट रोड से पूर्वी में बीएसएनएल कार्यालय की दीवार के साथ-साथ चलते हुए आईडीएसएमटी प्लान तक | वहां से उत्तर में बीएसएनएल की दीवार के साथ-साथ चलकर आईजीएनपी कालोनी की दीवार तक | वहां से पूर्वी में आईजीएनपी दीवार के साथ-साथ चलते हुए गोगामेड़ी तक | वहां से उत्तर में आईजीएनपी कालोनी के पूर्वी दीवार के साथ-साथ चलते हुए वाटर वर्क्स कालोनी व डिग्गियो को छोड़ते हुए जीवननगर रास्ते पर पारिकों की कृषि भूमि तक | वहां से पश्चिम में चलकर 22एजी रोड तिराहे तक |

#### वार्ड न. 32

मेगा हाइवे रोड पर सी.पी.एस. रिसोर्ट को उत्तर दिशा में छोड़ते हुए पूर्व में चलते हुए 22 एजी रोड तक | वहां से दक्षिण दिशा में सड़क के साथ-साथ चलते हुए 22 एजी , जीवननगर तीराह तक | वहां से जीवननगर रास्ते वाटर वर्क्स की डिग्गियो तक | वहां से दक्षिण में मुड़कर पारिकों की कृषि भूमि छोड़ते हुए डिग्गियो के साथ-साथ चलते हुए वाटर वर्क्स व आईजीएनपी कालोनी को शामिल करते हुए आईजीएनपी कालोनी की दक्षिण दीवार के साथ-साथ पश्चिम में चलते हुए बीएसएनएल कार्यालय की दीवार तक | वहां से बीएसएनएल कार्यालय की पूर्वी दीवार के साथ-साथ दक्षिण में चलते हुए कोर्ट रोड तक वहां से बीएसएनएल कार्यालय को शामिल कर कोर्ट रोड पर पश्चिम में चलते हुए मेगा हाइवे तक | वहां से मेगा हाइवे पर उत्तर में खेतपाल मंदिर तक | वहां से मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ चलते हुए पाली राम धरतपाल के नोहरे तक | वहां से उत्तर में चलते हुए गुरबचन मिस्त्री को शामिल कर जसमीत सिंह व कृष्ण गोपाल के घर को छोड़ते हुए सीधा मेगा हाइवे तक | वहां से मेगा हाइवे पर सीधा चलकर सीपीएस रिसोर्ट तक |

#### वार्ड न. 33

मेगा हाइवे पर पालिका की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चलते हुए, फिर सीमा के साथ साथ दक्षिण में चलकर JVVNL के कार्यालय व कालोनी को पूर्व में शामिल करते हुए सीधा चलते हुए मनोहर मेघवाल के घर को शामिल करते हुए सीधा चलते हुए जेताणी जोहड़ी, हेलिपैड को शामिल करते हुए जेताणी जोहड़ी के साथ साथ चलते हुए पूर्व में मुड़कर हेलिपैड रोड तक | वहां से रोड पर दक्षिण में हुए सुरेन्द्र सेठी के मकान को शामिल कर ओमप्रकाश रणवां को छोड़ते हुए वहां से सुरजाराम गोदारा के घर तक | वहां से पूर्व में मुड़कर विनोद सोनी को छोड़ते हुए राजाराम नाई, राजेन्द्र गोदारा को छोड़ते हुए गंदे पानी नाले ही पुलिया तक | वहां से पूर्व में चलकर शिव मन्दिर को शामिल कर इन्द्रा देवी को छोड़ते हुए गुरुकुल स्कूल तक | वहां से पूर्व में चलकर भभूता सिद्ध मन्दिर तक | वहां से उत्तर में चलते हुए राजेन्द्र खोथ के मकान को शामिल कर चुन्नीराम, हनुमान डेलू को शामिल कर मनीराम काकड़ तक | वहां से रा030प्रा0 विधालय को शामिल कर भगवती किराना स्टोर को छोड़ते हुए मेगा हाइवे पर हनुमान मंदिर तक |

#### वार्ड न. 34

पालिका की उत्तरी-पश्चिमी सीमा नायक समाज श्मशान भूमि की पश्चिमी दिवार के साथ चलते हुए सीधा भाखरावाला चक रोड तक | वहां से पूर्व में चलकर रामस्वरूप थापन के घर तक | वहां से दक्षिण में सीमा के साथ साथ चलते हुए पानी के ओवरहेड टैंक को शामिल कर इकबाल सिंह के घर के पीछे ईदगाह की दिवार तक | वहां से ईदगाह की दिवार ओ श्मशान भूमि के साथ साथ पूर्व में चलते हुए गुरमेल पुत्र मुंशीराम के कच्चे घर तक | वहां से गुरमेल को शामिल कर सीधा पूर्व में चलकर गौशाला को दक्षिण में छोड़ते हुए बिश्नोई समाज श्मशान भूमि के पूर्वी कोने पर सतपाल भादू के कार्यालय तक | वहां से उत्तर में मुड़कर सीधा श्मशान भूमि के साथ चलते हुए साहबराम देहड़ू, राजाराम / सहीराम के मकानों तक, भाखरावाला रोड तक | वहां से साहबराम देहड़ू को छोड़ते हुए शिवकुमार व पृथ्वीराज देहड़ू सीधा उत्तर में चलकर सुरेन्द्र सेठी के मकान को छोड़ते हुए हेलिपैड तक | वहां से उत्तर में चलकर गुरुकुल को छोड़ते हुए इन्द्रा को शामिल कर पश्चिम में सीसी रोड पर चलते हुए गन्दे नाले की पुलिया तक | वहां से राजेन्द्र गोदारा व राजाराम नाई को शामिल कर पश्चिम में विनोद सोनी को शामिल कर हेलिपैड के उत्तरी सीमा व पालिका सीमा के साथ चलते हुए नायक समाज श्मशान भूमि तक |

#### वार्ड न. 35

ईदगाह के दक्षिण-पश्चिमी कोने के पास देवीलाल के मकान से दक्षिण में चलते हुए ओम सुथार पूर्व अध्यापक के मकान को शामिल करते हुए PSP के पास साज्जनराम नायक के घर तक | वहां से सड़क के साथ साथ दक्षिण में चलकर आगे खाली भूखंडों से होते हुए सलामुदीन/सफी मोहम्मद के घर तक | वहां से जोधाबास रोड पर शंकर पेडिवाल के मकान तक | वहां से दक्षिण में चलकर सफी मोहम्मद के मकान के सामने के नोहरो के बीच की सड़क पर चलते हुए रोशनदीन के नोहरे तक | वहां से उत्तर में मुड़कर महबूब खां के मकान तक | वहां से थोड़ा पश्चिम में चलते हुए चिरागदीन के घर तक | वहां से उत्तर दिशा में सड़क पर चलते हुए बांयी ओर के मकान को शामिल करते हुए करामत अली के मकान तक | करामत अली के मकान से पूर्व दिशा में मुड़कर LIGH जोधाबास सड़क पर चलते हुए दांयी ओर सत्तार धोबी, देवीलाल झिंजा को छोड़ते हुए बाबा रामदेव कालोनी तक | वहां से पश्चिम में छोड़ते हुए हंसराज बावरी, LIGH भूखण्ड स. 405 तक | वहां से बावरी के मकान को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर गौशाला को शामिल करते हुए गुरमेल पुत्र मुंशीराम के कच्चे घर, श्मशान भूमि की दिवार तक | श्मशान भूमि की दिवार के साथ साथ उत्तर में चलते हुए राजू स्वामी के मकान तक | राजू स्वामी के मकान को उत्तर में छोड़ते हुए श्मशान भूमि, ईदगाह को शामिल करते हुए ईदगाह के उत्तर- पश्चिमी कोने 1 APM की चक सीमा तक | ईदगाह के उत्तर- पश्चिमी कोने से देवीलाल के मकान तक |

अधिशायी अधिकारी,  
नगरपालिका रावतसर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।